

# अध्याय 14

## साथी हाथ बढ़ाना

### शब्दों के अर्थ लिखो-

बनावटी - नकली । तूफान - हवा का तेज और बहाव।  
मरम्मत - ठीक करना । सहायकजन- सहायता करने वाले लोग ।  
आपदा - मुसीबत ।

### सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ-

1. बाँबी कौन था ?  
क. छह साल का नटखट बालक [✓] ख.लेखक ग. समाज सेवक
2. बाँबी किसके साथ रहता था ?  
क.अपनी माँ और बड़े भाई के साथ [✓] ख. माता-पिता के साथ ग.नाना-नानी के साथ
- 3.कल रात गांव में क्या आया था ?  
ख.भालू ख.शेर ग.तूफान [✓]
- 4.बाँबी को कहाँ खेलना पसंद था ?  
क.खेत में ख.घर के पीछे बने आँगन में [✓] ग. खेल के मैदान में
- 5.मकान की मरम्मत करने में बाँबी की मदद कौन करेगा?  
क. पुलिस ख.वकील ग.सहायकजन [✓]

### दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द भरे-

- 1.बाँबी नहा-धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ ।
- 2.माँ ने इस बार बाँबी की आँखों में डर नहीं सुरक्षा का भाव पाया।
3. यह कहकर बाँबी दौड़कर फल-सब्जियाँ ,दवाई आदि एक टोकरी में रखकर ले आया।
- 4.प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,सहायकजन आपदा का शिकार बने लोगों को बचाने में तथा गायब लोगों को ढूँढने में उनकी मदद करते हैं।

### दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो-

1. बाँबी की माँ को किस खबर ने बेचैन कर दिया था?

उत्तर- बाबी की माँ को पास के गाँव में तूफान आने की खबर ने बेचैन कर दिया था।

2. प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- भयानक तूफान आना, भूकंप, अत्यधिक वर्षा होना या बाढ़ आना प्राकृतिक आपदा है।

3. प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसी व्यक्ति को आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं ?

उत्तर - प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति को आवश्यक सामग्री जैसे- अनाज, फल - सब्जियाँ, दवाइयाँ, कपड़े तथा खाने पीने की जरूरी वस्तुएँ देकर हम उनकी सहायता कर सकते हैं।

4. बाँबी की माँ ने उसे सहायता करने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या बताया ?

उत्तर- बाँबी की माँ ने बताया कि तूफान आने से गायब लोगों को ढूँढने में , लोगों को ठीक करने में, मकानों की मरम्मत में , आग बुझाने में प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्री, सहायक जन आपदा का शिकार बने लोगों को बचाने में मदद करते हैं।

5. बाँबी खुद को सुरक्षित क्यों महसूस करने लगा?

उत्तर बाँबी को यह एहसास हो गया था कि जब भी कोई आपदा आएगी तो हमारे आसपास के लोग हमारी सहायता करेंगे इसलिए अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था।

**दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए-**

1. बाँबी छह साल का नटखट बालक था।

2. उसे साइकिल चलाना, मिट्टी के घर बनाना बहुत लुभाता था ।

3. माँ, आप रेडियो पर क्या सुन रही थी ?

4. उनके चेहरे के हाव-भाव गंभीर थे। 5. क्या ये सब बातें तुम्हें भयभीत कर रही हैं?

माँ ने पूछा।